

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अप्रैल, 2021 महीने की प्रमुख उपलब्धियां

रो-पैक्स जेटी और सहायक अवसंरचना का विकास

अप्रैल, 2021 महीने में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा राज्य में भद्रक जिले में कनीनाली और केंद्रपरा जिले में तालाचूआ को जोड़ने वाली रो-पैक्स जेटी और सहायक सुविधा के विकास की परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। भद्रक जिले में कनीनाली धामरा नदी के बायें किनारे पर और केंद्रपरा जिले में तालाचूआ धामरा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सड़क माध्यम से संपर्कता नहीं होने के कारण सैकड़ों यात्री और स्थानीय लोग सरकारी लॉचों और निजी नौकाओं के माध्यम से अक्सर नदी पार करने के लिए इन फेरी घाटों (7 कि.मी. की दूरी) का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सुविधाओं से लोग धामरा पत्तन टाऊन तक पहुंच सकते हैं जो तालाचूआ से धामरा तक की 200 कि.मी. की सड़क माध्यम से लगने वाली दूरी को कम से कम समय में तय करते हुए स्थानीय लोगों को वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियां प्रदान करता है।

पत्तन निष्पादन

(i) अर्थव्यवस्था के सुधार में अवरोधक साबित हुई कोविड-19 की दूसरी लहर में कोचीन पोर्ट ने अप्रैल, 2021 में 2.59 एमएमटी का कुल थ्रूपुट दर्ज किया है, जो कि अप्रैल, 2020 की तुलना में 38.25% की वृद्धि दर्शाता है, जब इस महामारी ने थ्रूपुट पर गंभीर रूप से प्रभाव डाला था। अप्रैल, 2021 में पीओएल थ्रूपुट ने 1.41 एमएमटी दर्ज किया और कंटेनर थ्रूपुट 0.56 लाख टीईयू रहा, जिसमें अप्रैल 2020 की तुलना में क्रमशः 2.56% और 111% तक बढ़ा है।

(ii) जवाहरलाल नेहरू पत्तन में अप्रैल, 2020 में 3.95 मिलियन टन की तुलना में अप्रैल, 2021 के दौरान संभाला गया कुल यातायात 6.32 मिलियन टन था, जो कि पिछले वर्ष के समान महीने में संभाले गए कुल यातायात की तुलना में 60.00% अधिक है। इस पत्तन में अप्रैल, 2021 के दौरान 512 रैकों के माध्यम से आईसीडी के 77,275 टीईयू यातायात की संभलाई की। जेएन पत्तन पर रेल संभलाई हुए समुद्र सुधार का श्रेय कंटेनर ट्रेन प्रचालकों (कोनकोर और निजी सीटीओ दोनों), रेलवे और पत्तन टर्मिनलों के बीच बेहतर सहयोग और कुशलता को जाता है।

अंतर्देशीय जल परिवहन

(i) त्रिबेनी (बंदेल) जेटी पर भारतीय तथा बांग्लादेश ध्वज जलयानों/बार्जों पर माल चढ़ाने/उतारने के लिए 16 मार्च, 2021 को "सीमाशुल्क क्षेत्र" की अधिसूचना जारी की गई।

(ii) आईडब्ल्यूटी टर्मिनल धुबरी पर माल चढ़ा कर आईबीपी मार्ग का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेशी जलायानों एमवी शाह मदीना-1 और एमबी अल्लाहार रहमत एक्सपी-3 के माध्यम से 345 एमटी स्टोन चिप्स का वहन करते हुए भूटान के कार्गो का बांग्लादेश तक परिवहन जारी रहा।

(iii) इस महीने के दौरान निम्नलिखित ओडीसी आवागमन हुए।

(क) बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड के लिए बडज बडज रो रो जेट्टी-5, कोलकाता से मोंगला तक बीएचईएल का 350 एमटी।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1 के माध्यम से कोलकाता से कहेलगांव तक 396.80 एमटी।

कोविड संबंधी कार्गो की संभलाई करने वाले जलयानों को विशेष छूट

कोविड-19 संबंधी संकट का सामना करने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए मंत्रालय ने सभी महापत्तनों को अगले तीन महीनों के लिए महापत्तन न्यासों द्वारा वसूले जाने वाले सभी प्रभारों (जलयान संबंधी प्रभार और भंडारण प्रभार आदि सहित) को समाप्त करने और मेडिकल ग्रेड-ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कोनसंटेटर आदि का वहन करने वाले जलयानों को बर्थिंग क्रम में उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

सभी महापत्तनों के अध्यक्षों को लॉजिस्टिक प्रचालनों का व्यक्तिगत रूप से अधीक्षण करने और निम्नलिखित को सुनिश्चित करते हुए पत्तन में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए हैं:

(क) सभी पत्तन कार्मिकों, उनके निकट संबंधियों सहित, का टीकाकरण।

(ख) नाविकों के लिए टीकाकरण केंद्र और इसका व्यय संबंधित शिपिंग लाइनों द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) पत्तन अस्पतालों में जीवन रक्षा दवाइयों और इंजेक्शनों का पर्याप्त स्टोक।

(घ) बेहतर आईसीयू उपचार सुविधाएं और वेंटीलेटर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना।

(ङ) कार्मिकों और ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनीटाइजेशन जैसे मेडिकल प्रोटोकॉल और निवारक उपाय लागू करना।